



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 ज्येष्ठ, 1940 (श०)

संख्या- 533 राँची, शुक्रवार

25 मई, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

15 मई, 2018

संख्या:- 08/नीति-02/2015 3185-- पंचम वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा के अनुच्छेद 45.23 को दृष्टिपथ में रखते हुए वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-660 दिनांक 8 फरवरी, 1999 के अनुसूची III की कंडिका (14) में लिए गए निर्णय के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुरूप झारखण्ड सचिवालय सेवा का गठन करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या-4619 दिनांक 2 अगस्त, 2010 द्वारा झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 का गठन किया गया है ।

2. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेन्शन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या F.No.21/12/2010-CS.I(P), दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अन्तर्गत

'सहायक' पद का पदनाम परिवर्तित करते हुए 'सहायक अनुभाग अधिकारी' किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में झारखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत 'सहायक' पदनाम को परिवर्तित करते हुए 'सहायक प्रशाखा पदाधिकारी' किया जाता है।

3. उक्त पदनाम परिवर्तन के फलस्वरूप राजकोश पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।

4. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ए.के. सत्यजीत,
सरकार के उप सचिव।
